



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2007/फाल्गुन 22, 1928

No. 261]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2007/PHALGUNA 22, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2007

का.आ. 359(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में ताम्बरम तालुक के इरूमबुलियूर गाँव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 27/8 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 13/8 कि.मी. को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-1) का निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला कांचीपुरम और थिरुवल्लूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु जिसका कैप कार्यालय तालुक कार्यालय परिसर, पूनामल्ली में है, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 27/8 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 13/8 कि.मी. को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-1) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक संख्या	टउन सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कांचीपुरम	ताम्बरम	इरूमबुलियूर	9	1/22 भाग	निजी	रईयतवाड़ी मनई	270

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			इरुम्बुलियूर-जारी	9	2/1 भाग	निजी	रईयतवाडी मनई	450
				20	2 भाग	सरकारी	रेलवे	212

[फा. सं. भासराप्र/13012/4/98-पीआई/3ए/सीबीपी-इरुम्बुलियूर/एलए/एसपी (भाग)]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2007

S.O. 359(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening), maintenance, management and operation of Chennai By-pass (Phase - I) connecting National Highway No. 45 at km. 27/8 and National Highway No. 4 at km. 13/8 in Irumbuliyur Village, Tambaram Taluk, Kanchipuram District in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under Sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely the Special District Revenue Officer (LA), National Highways, Kanchipuram and Thiruvallur Districts, at Kanchipuram, Tamil Nadu, having his camp office at Taluk Office Premises, Poonamallee, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under Sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of Chennai by-pass (Phase-I) connecting National Highway No. 45 at km. 27/8 and National Highway No. 4 at km. 13/8 in the State of Tamil Nadu.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Block number	Town Survey Number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kanchipuram	Tambaram	Irumbuliyur	9	1/22 part	Private	Ryotwari Manai	270
				9	2/1 Part	Private	Ryotwari Manai	450
				20	2 Part	Government	Railway	212

[F. No. NHAI/13012/4 98-PI 3A-CBP-Irumbuliyur/LA/SP (Part)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.